

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जून 30	मई 31	जून 28	2024-25	2024
		1	2	3	4	%
I. बैंक ऋण (II+III)	16432164 (15901477)	14383718	16781420 (16270342)	16880782 (16380551)	2.7 (3.0)	17.4 (13.9)
II. खाद्यान्न ऋण	23081	27906	40259	33904	46.9	21.5
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	16409083 (15878397)	14355812	16741162 (16230083)	16846879 (16346648)	2.7 (2.9)	17.4 (13.9)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	2071251	1839319	2139047	2159559	4.3	17.4
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3652804 (3635810)	3447826	3703160 (3687080)	3728156 (3712270)	2.1 (2.1)	8.1 (7.7)
2.1 सूक्ष्म और लघु	726315	659279	736404	731625	0.7	11.0
2.2 मध्यम	303998	280971	313398	316322	4.1	12.6
2.3 बड़े	2622490	2507577	2653358	2680209	2.2	6.9
3. सेवाएं	4592227 (4490467)	4010839	4681338 (4587710)	4707069 (4616040)	2.5 (2.8)	17.4 (15.1)
3.1 परिवहन परिचालक	230175	204104	243074	242193	5.2	18.7
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25917	23580	25787	26677	2.9	13.1
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	77513	70430	78408	78351	1.1	11.2
3.4 शिपिंग	7067	7288	6908	7019	-0.7	-3.7
3.5 विमानन	43248	41578	45556	45360	4.9	9.1
3.6 पेशेवर सेवाएं	167234	150089	179919	172138	2.9	14.7
3.7 व्यापार	1025752	923022	1054824	1059459	3.3	14.8
3.7.1 थोक व्यापार ¹	538744	484404	556014	557604	3.5	15.1
3.7.2 खुदरा व्यापार	487008	438618	498810	501856	3.0	14.4
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	469013 (400470)	343536	479120 (415390)	483297 (421756)	3.0 (5.3)	40.7 (22.8)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	1548027	1434293	1568073	1555496	0.5	8.5
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	325626	333527	331251	328232	0.8	-1.6
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	226963	192734	226676	197127	-13.1	2.3
3.10 अन्य सेवाएं ³	998281 (978198)	812919	999668 (980290)	1037078 (1018174)	3.9 (4.1)	27.6 (25.2)
4. व्यक्तिगत ऋण	5331290 (4852210)	4368025	5456633 (4995156)	5486107 (5091342)	2.9 (4.9)	25.6 (16.6)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23713	22412	24683	24123	1.7	7.6
4.2 आवास	2718715 (2264677)	2052839	2786598 (2349060)	2798568 (2427447)	2.9 (7.2)	36.3 (18.2)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	125239	121686	123334	126533	1.0	4.0
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	8492	7840	9262	9357	10.2	19.3
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	257016	221370	267979	273044	6.2	23.3
4.6 शिक्षा	119380	101693	121102	121990	2.2	20.0
4.7 वाहन ऋण	589251	525518	602270	603829	2.5	14.9
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	102562	94872	116777	123776	20.7	30.5
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1386921 (1362113)	1219794	1404629 (1380790)	1404889 (1381337)	1.3 (1.4)	15.2 (13.2)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ ⁴	2081856	1857357	2078112	2186829	5.0	17.7
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1974191	1769204	2030754	2020474	2.3	14.2
(iii) मध्यम उद्यम ⁶	490703	447562	502496	511467	4.2	14.3
(iv) आवास	755222 (660572)	633058	762822 (670883)	752911 (661668)	-0.3 (0.2)	18.9 (4.5)
(v) शिक्षा ऋण	62235	59458	61277	61269	-1.6	3.0
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	5991	4572	5923	6279	4.8	37.3
(vii) सामाजिक अवसरचना	2613	2642	2674	2949	12.9	11.6
(viii) निर्यात ऋण	11774	13219	11218	11721	-0.5	-11.3
(ix) अन्य	61336	69669	62047	60871	-0.8	-12.6
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ/एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1647778	1434996	1670313	1716930	4.2	19.6

टिप्पणियाँ:

- (1) डेटा अंतिम है। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा भारत-42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एनबीएफसी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र वार और उद्योग वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित है जिसमें बुनियादी बैंकों के लेखांकन के आधार पर महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।
- (2) 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।
- (3) 19 मई 2023 की अवधि के लिए दिया गया बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण 2 जून 2023 से संबंधित है।
- (4) बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर की गणना 2 जून 2023 की तुलना में 31 मई 2024 को बकाया ऋण के आधार पर की गई है।
1. थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर के खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. "अन्य सेवाओं" के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एसएफ के अलावा बैंकिंग व चित तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
5. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।